



गणेश चालीसा

॥ दोहा ॥

जय गणपति सदगुण सदन,
करि वर बदन कृपाल।
विघ्न हरण मंगल करण,
जय जय गिरिजालाल।।

॥ चौपाई ॥

जय जय जय गणपति गणराजू,
मंगल भरण करण शुभ काजू।

जय गजबदन सदन सुखदाता,
विश्वविनायक बुद्धि विधाता।

वक्र तुण्ड शुचि शुण्ड सुहावन,
तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन।

राजत मणि मुक्तन उर माला,
स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला।

पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं,
मोदक भोग सुगन्धित फूलं।

सुन्दर पीताम्बर तन साजित,
चरण पादुका मुनि मन राजित।

धनि शिव सुवन षडानन भ्राता,
गौरी ललन विश्व विख्याता।

ऋद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे,
मूषक वाहन सोहत द्वारे।

कहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी,
अति शुचि पावन मंगलकारी।

एक समय गिरिराज कुमारी,
पुत्र हेतु तप कीन्हों भारी।

भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा,
तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा।

अतिथि जानि के गौरी सुखारी,
बहु विधि सेवा करी तुम्हारी।

अति प्रसन्न हैं तुम वर दीन्हा,
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा।

मिलहिं पुत्र तुहि, बुद्धि विशाला,
बिना गर्भ धारण यहि काला।

गणनायक गुण ज्ञान निधाना,
पूजित प्रथम रूप भगवाना।

अस केहि अन्तर्धान रूप है,
पलना पर बालक स्वरूप है।

बनि शिशु रुदन जबहिं तुम ठाना,
लखि मुख सुख नहिं गौरी समाना।

सकल मगन सुख मंगल गावहिं,
नभ ते सुरन सुमन वर्षावहिं।

शम्भु उमा बहु दान लुटावहिं,
सुर मुनिजन सुत देखन आवहिं।

लखि अति आनन्द मंगल साजा,
देखन भी आए शनि राजा।

निज अवगुण गनि शनि मन माहीं,
बालक देखन चाहत नाहीं।

गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो,
उत्सव मोर न शनि तुहि भायो।

कहन लगे शनि मन सकुचाई,
का करिहों शिशु मोहि दिखाई।

नहिं विश्वास उमा उर भयऊ,
शनि सों बालक देखन काऊ।

पड़तहिं शनि दुगकोण प्रकाशा,
बालक सिर उड़ि गयो नहिं अकाशा।

गिरिजा गिरी विकल है धरणी,
सो दुख दशा गयो नहिं वरणी।

हाहाकार मच्यो कैलाशा,
शनि कीन्हों लखि सुत का नाशा।

तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधाये,
काटि चक्र सो गजशिर लाये।

बालक के धड़ ऊपर धारयो,
प्राण मन्त्र पढ़ि [शंकर](#) डारयो।

नाम गणेश शम्भु तब कीन्हें,
प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हें।

बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा,
पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा।

चले षडानन, भरमि भुलाई,
रचे बैठि तुम बुद्धि उपाई।

चरण मातु पितु के धर लीन्हें,
तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें।

धनि गणेश कहि शिव हिय हृष्यो,
नभ ते सुरन सुमन बहु वष्यो।

तुम्हारी महिमा बुद्धि बड़ाई,
शेष सहस मुख सके न गाईं।

मैं मति हीन मलीन दुखारी,
करहुँ कौन विधि विनय तुम्हारी।

भजत राम सुन्दर प्रभुदासा,
जग प्रयाग ककरा दुर्वासा।

अब प्रभु दया दीन पर कीजे,
अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे।

॥ दोहा ॥

श्री गणेश यह चालीसा,

पाठ करे धर ध्यान ।

नित नव मंगल गृह बसै,

लहै जगत सनमान ॥

सम्बन्ध अपना सहस्र दश,

ऋषि पंचमी दिनेश ।

पूरण चालीसा भयो,

मंगल मूर्ति गणेश ॥

हिन्दीपथ.कॉम

अन्य चालीसा पढ़े

- [हनुमान चालीसा](#)
- [सूर्य चालीसा](#)
- [शिव चालीसा](#)
- [महावीर चालीसा](#)
- [दुर्गा चालीसा](#)
- [साईं चालीसा](#)
- [शनि चालीसा](#)
- [महाकाली चालीसा](#)
- [गणेश चालीसा](#)
- [तुलसी चालीसा](#)
- [लक्ष्मी चालीसा](#)
- [बगलामुखी चालीसा](#)
- [राम चालीसा](#)
- [गोरख चालीसा](#)
- [विष्णु चालीसा](#)
- [गोपाल चालीसा](#)
- [गायत्री चालीसा](#)
- [नवग्रह चालीसा](#)
- [काली चालीसा](#)
- [रविदास चालीसा](#)
- [भैरव चालीसा](#)
- [बाला जी चालीसा](#)
- [सरस्वती चालीसा](#)
- [महालक्ष्मी चालीसा](#)
- [कृष्ण चालीसा](#)
- [पार्वती चालीसा](#)

- [खाटू श्याम चालीसा](#)
- [शारदा चालीसा](#)
- [रामदेव चालीसा](#)
- [ललिता चालीसा](#)
- [राधा चालीसा](#)
- [अन्नपूर्णा चालीसा](#)
- [विश्वकर्मा चालीसा](#)
- [श्री वैष्णो चालीसा](#)
- [पितर चालीसा](#)
- [परशुराम चालीसा](#)
- [बटुक भैरव चालीसा](#)
- [विन्ध्येश्वरी चालीसा](#)
- [जाहरवीर चालीसा](#)
- [ब्रह्मा चालीसा](#)
- [गिरिराज चालीसा](#)
- [शाकम्भरी चालीसा](#)
- [नर्मदा चालीसा](#)
- [राणी सती चालीसा](#)
- [प्रेतराज चालीसा](#)
- [गंगाराम चालीसा](#)
- [संतोषी चालीसा](#)
- [बालक नाथ चालीसा](#)
- [गंगा चालीसा](#)
- [मोहन राम चालीसा](#)
- [शीतला चालीसा](#)